



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2025 — माघ 3, शक 1946

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 जनवरी 2025

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-38/2024/रो.वि./42. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ रोजगार (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

### नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ रोजगार (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2024 कहलायेंगे।  
(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है संचालनालय के लिए संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण तथा संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालयों के लिये उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी;
  - (ख) “समिति” से अभिप्रेत है क्रमशः नियम 11 एवं 13 के अधीन गठित चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;
  - (ग) “संचालक” से अभिप्रेत है संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़;
  - (घ) “उप-संचालक” से अभिप्रेत है उप-संचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र/प्रवर्तन कक्ष/विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु);
  - (ङ) “जिला रोजगार अधिकारी” से अभिप्रेत जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र/अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र;
  - (च) “परीक्षा” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा;
  - (छ) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
  - (ज) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
  - (झ) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
  - (ञ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
  - (ट) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

- (ठ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ड) "सेवा" से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ रोजगार (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) सेवा;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
  - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
  - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।
5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे :  
परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।
6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—
- (क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;
  - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा; तथा
  - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों के संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।
- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा तैयार किये जायेंगे। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना होंगी, अर्थात्:—

(एक) आयु— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु-सीमा, अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी/स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही

वह एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण :** शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण :** शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:-

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें-
  - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
  - (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;
- (तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं);
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किया गया हो;

- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया होय
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा, 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ञ) शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को, उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अलावा आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

**टीप—** (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा के पूर्व या पश्चात् तथा चयन के पूर्व सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची तीन के कॉलम (5) में दर्शित है।

(तीन) (क) **शुल्क**— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) **चिकित्सा शुल्क**— उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता**— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा**— (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।



(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

**11. प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती:— (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:—**

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें 3 सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

**(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती:—**

(एक) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

(दो) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अंतराल पर गठित की जायेगी।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क. 21 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान रखते हुए नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, को उप-नियम (3) के अनुसार, यथास्थिति, क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30% पदों को महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जायेगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं

है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

12. **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.**— (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के कम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप-नियम की अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) में तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन-नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।



14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**— (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

**स्पष्टीकरण.**—पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहुत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेंडर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जायेगी।

(3) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु चयन, मेरिट तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता (ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता) के आधार पर होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पद में वरिष्ठता के कम से रखे जायेंगे।

**स्पष्टीकरण.**—ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्पूर्ति चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेंडर वर्ष 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु, पदोन्नति चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के निर्देशानुसार, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार चयन सूची में आये हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि पदोन्नति चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।
18. **परिवीक्षा.**— (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (2) सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।
19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामलों में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:
- परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।
21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:
- परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।
- (2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव अहिरे, उप-सचिव.

**अनुसूची-एक**  
(नियम 5 देखिए)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स लेवल	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
क- संचालनालय हेतु					
1	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	02	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	लेवल-9	संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
2	सहायक प्रोग्रामर	01	-तदैव-	लेवल-9	
3	अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	लेवल-9	
4	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	18	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	लेवल-8	
5	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	-तदैव-	लेवल-8	
6	सहायक ग्रेड-एक	10	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	लेवल-7	
7	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	01	-तदैव-	लेवल-7	
8	सहायक ग्रेड-दो	37	-तदैव-	लेवल-6	
9	लेखापाल	01	-तदैव-	लेवल-6	
10	डाटा एंट्री ऑपरेटर	01	-तदैव-	लेवल-6	
11	स्टेनो टायपिस्ट	02	-तदैव-	लेवल-4	
12	सहायक ग्रेड-तीन	06	-तदैव-	लेवल-4	
13	वाहन चालक	02	तृतीय श्रेणी अलिपिकीय	लेवल-4	
ख-संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालयों के लिये					
1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	32	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	लेवल-6	उप-संचालक / जिला रोजगार अधिकारी
2	स्टेनो टायपिस्ट	06	-तदैव-	लेवल-4	
3	सहायक ग्रेड-तीन	79	-तदैव-	लेवल-4	
4	वाहन चालक	05	तृतीय श्रेणी अलिपिकीय	लेवल-4	

**अनुसूची-दो**  
(नियम 6 देखिए)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			नियुक्ति प्राधिकारी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1)(क) देखिए)	सेवा में मूल/स्थानापन्न/ सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1)(ख) देखिए)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1)(ग) देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क-संचालनलाय हेतु						
1	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	02	—	—	100%	संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
2	सहायक प्रोग्रामर	01	100%	—	—	
3	अधीक्षक	01	—	100%	—	
4	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	18	50%	50%	—	
5	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	—	100%	—	
6	सहायक ग्रेड-एक	10	—	100%	—	
7	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	01	—	100%	—	
8	सहायक ग्रेड-दो	37	—	100%	—	
9	लेखापाल	01	—	100%	—	
10	डाटा एंट्री ऑपरेटर	01	100%	—	—	
11	स्टेनो टायपिस्ट	02	100%	—	—	
12	सहायक ग्रेड-तीन	06	75%	25%	—	
13	वाहन चालक	02	100%	—	—	
ख-संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालयों के लिये						
1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	32	100%	—	—	उप-संचालक / जिला रोजगार अधिकारी
2	स्टेनो टायपिस्ट	06	100%	—	—	
3	सहायक ग्रेड-तीन	79	75%	25%	—	
4	वाहन चालक	05	100%	—	—	

नोट— संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त पदों की पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण होंगे।

## अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

स. क.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष)	बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) में प्रथम श्रेणी या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी  अथवा एम.सी.ए./एम.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर अथवा भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर साइंस में एम.एस.सी./एम.ए. में प्रथम श्रेणी या कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी  अथवा बी.सी.ए./बी.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक अथवा भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री/बी.एस.सी./बी.ए. कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी या कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी ।	संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
2	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	21 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।	-तदैव-
3	डाटा एंट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	-तदैव-	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण  अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।  अथवा कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा ।  (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर /प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण/ उप-संचालक, रोजगार/ रोजगार अधिकारी

4	स्टेनो टाइपिस्ट	—तदैव—	नियमानुसार	<p>(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)</p> <p>(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से ) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र ( गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)</p>	—तदैव—
5	सहायक ग्रेड— तीन	18 वर्ष	—तदैव—	<p>(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।</p> <p>(3) किसी मान्यता प्राप्त मंडल /संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से ) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र ( गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)</p>	—तदैव—
6	वाहन चालक	18 वर्ष	—तदैव—	<p>8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण एवं हल्के वाहन चलाने का ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए।</p>	—तदैव—



**अनुसूची-चार**  
(नियम 14 देखिए)

स. क.	सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद हेतु पात्रता के लिये अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
1	सहायक ग्रेड-एक	अधीक्षक / कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	5 वर्ष	(1) संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़  —अध्यक्ष
2	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन			
3	सहायक ग्रेड-एक (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5 वर्ष	(2) अनु.जा./अनु. जन./पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामांकित प्रथम श्रेणी अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का न हो  —सदस्य
4	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल	सहायक ग्रेड-एक	5 वर्ष	
5	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो	5 वर्ष	(3) महिला अभ्यर्थी का एक सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामांकित प्रथम श्रेणी अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का न हो  —सदस्य
6	सहायक ग्रेड-तीन (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)	लेखापाल	5 वर्ष	
7	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	5 वर्ष	(टीप- विभागीय पदोन्नति समिति की टीप-6 के अनुसार सदस्य होगा)
8	चतुर्थ श्रेणी (नियमित कर्मचारी)	सहायक ग्रेड-तीन	5 वर्ष	

**टिप्पणी:-**

1. सहायक ग्रेड-एक से कनिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर, पदोन्नति के लिए, लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. सहायक ग्रेड-तीन से लेखापाल के पद पर पदोन्नति के लिए, लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. सहायक ग्रेड-तीन के पद पर नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संयुक्त एकजाई वरिष्ठता के आधार पर केवल उन्हीं कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा सकेगी, जो सहायक ग्रेड-तीन के विहित शैक्षणिक अर्हता (12 वीं कक्षा उत्तीर्ण) रखते हों।
4. छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन की अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार-जिस तिथि से परिवीक्षा अवधि समाप्त होती है तथा उसे उस सेवा या पद पर लागू न्यूनतम वेतनमान दिया जाता है, उस तिथि से अनुभव की गणना की जायेगी।
5. पदोन्नति हेतु, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
6. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2019/आ.प्र./1-3, दिनांक 24.06.2020 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 27.08.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य होंगे।

Nava Raipur Atal Nagar, the 14th January 2025

## NOTIFICATION

No. F 1-38/2024/R.V./42. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of the service for the Chhattisgarh Employment (Non- Gazetted Class-III) Services, namely:-

## RULES

### 1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Employment (Class- III Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

### 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) **"Appointing Authority"** in respect of service means the Director, Employment and Training for the Directorate and the Deputy Director/ District-Employment Officer for the subordinate offices of the Directorate;
- (b) **"Committee"** means a Selection Committee/ Departmental Promotion Committee constituted under rule 11 and 13 respectively;
- (c) **"Director"** means Director of Employment and Training Chhattisgarh;
- (d) **"Deputy Director"** means Deputy Director, Employment, District Employment and Self Employment Guidance Centre/Enforcement cell/Special Employment - Exchange (for the recruitment of differently abled);
- (e) **"District Employment Officer"** means District Employment Officer, District Employment and Sell employment Guidance Centre/ Coaching cum Guidance Centre;
- (f) **"Examination"** means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;
- (g) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

- (h) **"Governor "** means the Governor of Chhattisgarh;
- (i) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
- (j) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;
- (k) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
- (l) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
- (m) **"Service"** means the Chhattisgarh Employment: (Non- Gazetted Class III) Service;
- (n) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

**3. Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

**4. Constitution of the service.-** Service shall consist of the following persons, namely:-

- (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
- (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

**5. Classification, scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

**6. Method of recruitment.-**

- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -
  - (i) by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit;
  - (ii) by promotion of members of the service; and
  - (iii) by transfer/deputation of person, who hold in a substantive capacity such posts in such service, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prescribed by the Government. However, it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria other than these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya, Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time by the General Administration Department of the Government shall apply.

**7. Appointment in service.-** All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

**8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

- (I) **Age -**
- (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published.
  - (b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

- (i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;
- (ii) A candidate, holding a post temporarily /permanently and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;
- (iii) A candidate who is a "retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

**Explanation-** The term "retrenched Government servant denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not before 3 years from the date of his registration at the employment exchange application made otherwise for employment in Government service.

- (e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

**Explanation-** The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the



Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service, namely:-

- (i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;
  - (ii) Ex servicemen enrolled for the second time and discharged on-
    - (a) Completion of short term engagement;
    - (b) Fulfilling the conditions of the enrolment;
  - (iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
  - (iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Commissioned Officers);
  - (v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
  - (vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;
  - (vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
  - (viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984.
  - (g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.
  - (h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.
  - (1) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.



- (j) The maximum age shall not exceed 45 years, in any case, for admission of Government service to any candidates, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.
- (k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

**Note-** (1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (I) of rule 8 shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination and before the selection. They shall however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/selection.

**(II) Educational qualifications-** The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule-III.

**(III) (A) Fees-** The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

**(B) Medical Fees-** The candidate who has been required to appear before medical board must pay the fees, as prescribed by the Government, to the Chairman of Medical Board before Medical test

## 9. Disqualification.-

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment to any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

#### **10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.-**

(1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any discrepancy is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

#### **11. Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.-**

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination-** (i) Appointing Authority shall constitute a Selection Committee comprising of 3 members.

(ii) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(iii) The examination shall be conducted by Appointing Authority In accordance with in orders issued by the Government from time to time.

- (2) **Direct Recruitment by Selection-** (i) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as may be determined by the Appointing Authority.
- (ii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.
- (3) At the time of recruitment to the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade\_Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under the said Act by the General Administration Department of the Government from time to time, shall be applicable.
- (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (3) as the case may be.
- (6) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).
- (8) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

**12. List of candidates recommended by the Committee.-**

- (1) The Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration Lists so prepared shall also be published for information to the general public.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

**13. Appointment by Promotion.-**

- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

- (2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
- (4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions: issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.
- (5) Certification by the Appointing Authority Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions



issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said. Act.

#### **14. Conditions of eligibility for promotion.-**

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

**Explanation-** The method of computation for eligibility for promotion- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The promotion shall be made in accordance with the order issued by the General Administration Department from time to time and as per Model Roster.

#### **15. Preparation of list of suitable candidate.-**

(1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list.

(2) The Selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect (seniority subject to fitness)

(3) The name of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service of past as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

**Explanation-** The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persona considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

**16. Select List.-**

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be valid till 31 December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list for promotion, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Appointing Authority may, if he think fit, remove the name of such person from the select list.

**17. Appointment to the service from the select list.-**

(1) Appointment of the employee included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the promotion select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

**18. Probation.-**

(1) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of 2 years.

**19. Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

**20. Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.



**21. Repeal and saving.-**

(1) All rules corresponding these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
RAJEEV AHIRE, Deputy Secretary.

**SCHEDULE-I**

(See rule 5)

S. No.	Name of the posts included in the service	Total number of duty posts	Classification	Pay Matrix Level	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A- FOR THE DIRECTORATE					
1.	Assistant Statistical Officer	02	Class-III Executive	Level- 9	Director, Employment and Training
2.	Assistant Programmer	01	-do-	Level- 9	
3.	Superintendent	01	Class-III Ministerial	Level- 9	
4.	Junior Employment Officer	18	Class-III Executive	Level- 8	
5.	Junior Accounts Officer	01	-do-	Level- 8	
6.	Assistant Grade-I	10	Class-III Ministerial	Level- 7	
7.	Stenographar Grade-III	01	-do-	Level- 7	
8.	Assistant Grade-II	37	-do-	Level- 6	
9.	Accountant	01	-do-	Level- 6	
10.	Data Entry Operator	01	-do-	Level- 6	
11.	Steno Typist	02	-do-	Level- 4	
12.	Assistant Grade- III	06	-do-	Level- 4	
13.	Driver	02	Class-III Non-Ministerial	Level- 4	
B- FOR THE SUB-ORDINATE OFFICES OF THE DIRECTORATE					
1.	Data Entry Operator	32	Class-III	Level- 6	Deputy Director/ District Employment Officer
2.	Steno Typist	06	-do-	Level- 4	
3.	Assistant Grade- III	79	-do-	Level- 4	
4.	Driver	05	Class-III Non-Ministerial	Level- 4	

**SCHEDULE-II****(See rule 6)**

S. No.	Name of the posts included in the service	Total number of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Appointing Authority
			By direct recruitment (See rule 6(1)(a))	By Promotion of substantive /officiating members of service (See rule 6(1)(b))	By Transferred/ Deputation of member of other services (See rule 6(1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A- FOR THE DIRECTORATE</b>						
1.	Assistant Statistical Officer	02	-	-	100%	Director, Employment and Training
2.	Assistant Programmer	01	100%	-	-	
3.	Superintendent	01	-	100%	-	
4.	Junior Employment Officer	18	50%	50%	-	
5.	Junior Accounts Officer	01	-	100%	-	
6.	Assistant Grade-I	10	-	100%	-	
7.	Stenographer Grade-III	01	-	100%	-	
8.	Assistant Grade-II	37	-	100%	-	
9.	Accountant	01	-	100%	-	
10.	Data Entry Operator	01	100%	-	-	
11.	Steno Typist	02	100%	-	-	
12.	Assistant Grade- III	06	75%	25%	-	
13.	Driver	02	100%	-	-	

<b>B- FOR SUB-ORDINATE OFFICES OF THE DIRECTORATE</b>						
1.	Data Entry Operator	32	100%	-	-	Deputy Director/ District Employment Officer
2.	Steno Typist	06	100%	-	-	
3.	Assistant Grade- III	79	75%	25%	-	
4.	Driver	05	100%	-	-	

**Note:-** For the promotion of all the post of directorate and sub- ordinate offices, the recruitment officer shall be the Director, Employment and Training.

**SCHEDULE-III**

(See rule 8)

S. No.	Name of service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Educational Qualification prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Programmer	21 years	30 years (35 years for Local residents of the State of Chhattisgarh)	<p>B.E/ B.Tech./B.Sc (Engineering) in first division or at least 60 percent marks or equivalent grade.</p> <p><b>OR</b></p> <p>Post Graduate in M.C.A/ M.C.M./Information Technology or Physics/ Mathematics/Statistics/ Operation Research/ Economics/ M.Sc. in Computer Science/M.A. in first division or at least 60 percent marks or equivalent grade.</p> <p><b>OR</b></p> <p>Graduate in B.C.A/ B.C.M./ Information Technology or Post Graduate Degree in Physics/ Mathematics/Statistics/ Operation Research/ Economics /B.Sc./B.A. Computer Science /Computer Science or Post Graduate Diploma in first division in Computer Application or at least 60 percent marks or equivalent grade.</p>	Director. Employment and Training
2.	Junior Employment Officer	21 years	-do-	Should have Graduation degree from any recognised University	-do-
3.	Data Entry Operator	18 years	-do-	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,</p> <p><b>OR</b></p> <p>Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University,</p> <p><b>OR</b></p>	<p>Director. Employment and Training / Deputy Director, Employment / Employment Officer</p>

				<p>Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute.</p> <p>(2) One year diploma/ certificate in data entry operator/ programming from any recognized institute and certificate of Hindi and English typing 8000 (Key) depression per hour (through Computer and Software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).</p>	
4.	Steno Typist	18 years	-do-	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and certificate of Hindi or English typing 5000 (Key) depression per hour (through Computer and Software) from recognized Board /Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).</p>	-do-



5.	Assistant Grade- III	18 years	-do-	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Passed old Higher Secondary Examination with First year I examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute.</p> <p>(3) Certificate of Hindi or English typing 5000 (Key) depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).</p>	-do-
6.	Driver	18 years	-do-	Should have passed 8th Class Examination and have a valid LMV Driving license.	-do-

**SCHEDULE-IV****(See rule 14)**

S. No .	Name of service or posts from which promotion is to be made	Name of service or posts to which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for promotion	Name of member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Grade- I	Superintendent/ Junior Employment Officer	5 years	(1) Director, Employment and Training, Chhattisgarh. <b>-Chairman</b> (2) One member belongs to SC/ST/OBC not below the rank of Class-I officer nominated by the Chairman <b>-Member</b> (3) One member of women candidate not below the rank of Class-I officer nominated by the Chairman <b>-Member.</b> (The member shall be the Departmental Promotion Committee in accordance with Note-6)
2.	Stenographer Grade- III			
3.	Assistant Grade- I (Account Examination passed)	Junior Accountant Officer	5 years	
4.	Assistant Grade- II/ Accountant	Assistant Grade- I	5 years	
5.	Assistant Grade- III	Assistant Grade- II	5 years	
6.	Assistant Grade- III (Account Examination passed)	Accountant	5 years	
7.	Steno Typist	Stenographer Grade-III	5 years	
8.	Class-IV	Assistant Grade- III	5 years	

- Note.** 1. For promotion to the post of Assistant Grade-I to Junior Accounts Officer, it is necessary to pass the audit examination.
2. For promotion to the post of Accountant from Assistant Grade-III, it is necessary to pass the audit examination.
3. On the basis of common seniority of regular Class-IV employees on the post of Assistant Grade-III, only those employees who possess prescribed educational qualification (12th class pass) can be promoted for Assistant Grade-III.
4. According to the notification dated 28.07.2020 of Government of Chhattisgarh, Ministry of Finance, Ministry, Mahanadi Bhawan - Experience will be counted from the date on which the probation period ends and he is given the minimum pay scale applicable to that service or post.
5. For promotion, instructions issued from time to time by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department will also be applicable.
6. The members of the departmental promotion committee shall be as per the instructions given in Letter No. F 13 -8/2019/ A.Pra./1-3, dated 24.06.2020 and even number Letter Dated 27.08.2020 of General Administration Department of the Government.